

Reg. Office: K-20, 2nd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024

Tel.: 0120-2406450 | Email: info@skywebindia.in | Web: www.skywebindia.in

CIN No.: L72200DL1985PLC019763

Ref. No. - SIL/CO/SE/2025-26/31

30th August, 2025

To
Listing Department,
Metropolitan Stock Exchange of India Limited,
Building A, Unit 205A, 2nd Floor,
Piramal Agastya Corporate Park,
L.B.S Road, Kurla West,
Mumbai - 400 070

SYMBOL: SKYWEB

<u>Subject: Submission of copies of Newspaper advertisement, issued after completion of dispatch of Notice</u> <u>of 40th Annual General Meeting</u>

Dear Sir/Ma'am,

In terms of Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copy of newspaper advertisements, issued by the Company, after completion of dispatch of Notice of 40th Annual General Meeting of the Company. The Company has published the advertisements in the enclosed newspapers on 30th August, 2025.

- 1. Financial Express (English)
- 2. Jansatta (Hindi)

Kindly take the same on your records.

Thanking You

Yours truly For Skyweb Infotech Limited

Akshit Singla Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

FINANCIAL EXPRESS

Continued from previous page. **Final Demand**

A summary of the final demand as per NSE as on the Bid/Issue Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Share Total	Cumulative % of Total
1	82	5,40,800	0.08	5,40,800	0.08
2	83	65,600	0.01	6,06,400	0.09
3	84	64,000	0.01	6,70,400	0.10
4	85	3,48,800	0.05	10,19,200	0.16
5	86	2,09,600	0.03	12,28,800	0.19
6	87	63,99,50,400	99.81	64,11,79,200	100.00
	Total	64,11,79,200	100.00		

The Basis of Allotment was finalised in consultation with the Designated Stock Exchange, being NSE Limited on August 28, 2025.

1) Allotment to Individual Investors (After Rejections)

The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 87/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE Limited. The category has been subscribed to the extent of 157.44 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 15.74.400 Equity Shares to 492. successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

SI no	No. of Shares applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in this category	% of total	Proportionate Shares available	allot	itio of itees to licants	Number of successful applicants (after rounding)	Total No. of shares allocate allotted	Surplus/ Deficit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	- (10)	(12)	(14)	(16)
1	3200	77,462	100.00	24,78,78,400	100.00	3200	2	135	492	1574400	0

Allotment to Non-Institutional Investors- Above Rs. 2 Lakhs and Upto Rs. 10 Lakhs (After Rejections) The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 87/- per Equity Share, was finalized in consultation

with NSE Limited. The category has been subscribed to the extent of 227.45 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 2,25,600 Equity Shares to 47 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	allo	tion of ttees to licants	Total No. of shares allocated/alloted	Surplus/ Deficit (14)-(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(10)	(14)	(16)
1	4,800	9141	91.56	4,38,76,800	85.51	4,800	43	9141	2,06,400	
2	6,400	305	3.05	19,52,000	3.80	4,800	1	305	4,800	2.5
3	8,000	116	1.16	9,28,000	1.81	4,800	1	116	4,800) se
4	9,600	106	1.06	10,17,600	1.98	4,800	1	106	4,800	
5	11,200	316	3.17	35,39,200	6.90	4,800	1	316	4,800	[6
	Grand Total	9984	100.00	5,13,13,600	100.00	9,984	47		2,25,600	22

Allotment to Non-Institutional Investors- Above Rs. 10 Lakhs (After Rejections)

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have Bid at cut-off Price or at or above the Issue Price of Rs. 87/- per Equity Share, was finalized in consultation with NSE Limited. The category has been subscribed to the extent of 421.65 times. The total number of Equity Shares Allotted in this category is 4,49,600 Equity Shares to 93 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category is as under:

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Equity Shares Allotted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		
1	12,800	13455	95.87	17,22,24,000	90.85	4,800	90:13455	4,32,000
2	14,400	238	1.70	34,27,200	1.81	4,800	2:238	9,600
3	16,000	127	0.90	20,32,000	1.07	4,800	1:127	4,800
4	17,600	28	0.20	4,92,800	0.26	4,800	0:28	0
5	19,200	18	0.13	3,45,600	0.18	4,800	0:18	0
6	20,800	6	0.04	1,24,800	0.07	4,800	0:6	0
7	22,400	18	0.13	4,03,200	0.21	4,800	0:18	0
8	24,000	15	0.11	3,60,000	0.19	4,800	0:15	0
9	25,600	13	0.09	3,32,800	0.18	4,800	0:13	0
10	27,200	19	0.14	5,16,800	0.27	4,800	0:19	0
11	28,800	6	0.04	1,72,800	0.09	4,800	0:6	0
12	30,400	2	0.01	60,800	0.03	4,800	0:2	0
13	32,000	13	0.09	4,16,000	0.22	4,800	0:13	0
14	33,600	2	0.01	67,200	0.04	4,800	0:2	0
15	35,200	2	0.01	70,400	0.04	4,800	0:2	0
16	36,800	3	0.02	1,10,400	0.06	4,800	0:3	0
17	38,400	2	0.01	76,800	0.04	4,800	0:2	0
18	40,000	5	0.04	2,00,000	0.11	4,800	0:5	0
19	46,400	1	0.01	46,400	0.02	4,800	0:1	0
20	48,000	6	0.04	2,88,000	0.15	4,800	0:6	0
21	49,600	1	0.01	49,600	0.03	4,800	0:1	0
22	51,200	2	0.01	1,02,400	0.05	4,800	0:2	0
23	52,800	1	0.01	52,800	0.03	4,800	0:1	0
24	54,400	1	0.01	54,400	0.03	4,800	0:1	0
25	57,600	6	0.04	3,45,600	0.18	4,800	0:6	0
26	64,000	2	0.01	1,28,000	0.07	4,800	0:2	0
27	70,400	1	0.01	70,400	0.04	4,800	0:1	0
28	72,000	1	0.01	72,000	0.04	4,800	0:1	0
29	75,200	1	0.01	75,200	0.04	4,800	0:1	0
30	76,800	2	0.01	1,53,600	0.08	4,800	0:2	0
31	78,400		0.01	78,400	0.04	4,800	0:1	0
32	80,000	2	0.01	1,60,000	0.08	4,800	0:2	0
33	81,600	1	0.01	81,600	0.04	4,800	0:1	0
34	83,200	1	0.01	83,200	0.04	4,800	0:1	0
35	89,600	9	0.01	89,600	0.05	4,800	0:1	0

Sr. No	No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	No. of Equity Shares Allotted per Bidder	Ratio	Total No. of Equity Shares Allotte
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		12
36	92,800		0.01	92,800	0.05	4,800	0:1	0
37	96,000	2	0.01	1,92,000	0.10	4,800	0:2	0
38	1,02,400	1	0.01	1,02,400	0.05	4,800	0:1	0
39	1,10,400	1	0.01	1,10,400	0.06	4,800	0:1	0
40	1,12,000		0.01	1,12,000	0.06	4,800	0:1	0
41	1,13,600	4	0.03	4,54,400	0.24	4,800	0:4	0
42	1,15,200	3	0.02	3,45,600	0.18	4,800	0:3	0
43	1,28,000	3	0.02	3,84,000	0.20	4,800	0:3	0
44	1,50,400		0.01	1,50,400	0.08	4,800	0:1	0
45	1,60,000	1	0.01	1,60,000	0.08	4,800	0:1	0
46	1,71,200	1	0.01	1,71,200	0.09	4,800	0:1	0
47	1,88,800	1	0.01	1,88,800	0.10	4,800	0:1	0
48	2,19,200	1	0.01	2,19,200	0.12	4,800	0:1	0
49	2,28,800	1	0.01	2,28,800	0.12	4,800	0:1	0
50	2,32,000	3	0.02	6,96,000	0.37	4,800	0:3	0
51	2,86,400	1	0.01	2,86,400	0.15	4,800	0:1	0
52	3,82,400	1	0.01	3,82,400	0.20	4,800	0:1	0
53	3,93,600	1	0.01	3,93,600	0.21	4,800	0:1	0
54	4,62,400	1	0.01	4,62,400	0.24	4,800	0:1	0
55	5,12,000	1	0.01	5,12,000	0.27	4,800	0:1	0
56	5,66,400	1	0.01	5,66,400	0.30	4,800	0:1	-0
57	All applicants	from Serial no 01 to 57 f	or 1 (one) lo	THE STATE OF THE S		1,600	2:93	3,200
	Grand Total	14034	100.00	18,95,76,000	100.00			4,49,600

Allotment to QIBs, who have bid at the Issue Price of Rs. 87/- per Equity Share or above, has been done on a proportionate basis in consultation with NSE Limited. This category has been subscribed to the extent of 84.52 times of QIB portion. The total number of Equity Shares allotted in the QIB category is 8,99,200 Equity Shares, which were allotted to 40 successful Applicants.

Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC.2	NBFC'S	AIF	FPC/FII	Others	Total
QIB	35,200	49,600	19,200	3,44,000	2,19,200	2,32,000		8,99,200
5) Allocation to Mar	ket Maker (After Rejection	ons & Withdrawa	II): The Basis of A	lotment to Market N	laker who have bid	at Issue Price of ₹6	37/- per Equity Sh	ares or above, was

finalized in consultation with NSE Limited. The category was subscribed 1.00 times i.e. for 2,78,400 Equity Shares the total number of shares allotted in this category is 2,78,400 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under: No of Charge No of W to total Total No of Equity W of total No of Equity Charge Datin Total Number of Curplus/

Applied for (Category wise)	Applications received	76 IU IUIAI	Shares applied in this Category	76 UI 10tai	allocated/ allotted per Applicant	ne	stio	shares allotted	Deficit
68,800	4	50.00	68,800	50.00	68,800	1	1	68,800	0
2,09,600	36	50.00	2,09,600	50.00	2,09,600	18	.1	2,09,600	0
Total	1	100.00	2,78,400	100.00	2,78,400			2,78,400	0

6) Allotment to Anchor Investors (After Rejections)

The Company in consultation with the BRLM has allocated 13,44,000 Equity Shares to 10 Anchor Investors at the Anchor Investor issue price of Rs. 87/- per Equity Shares in accordance with the SEBI ICDR Regulations. This represents 60% of the QIB Category

CATEGORY	FIS/BANKS	MPS	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI/FPC	Others	TOTAL
ANCHOR	5	8	55	1,15,200	8,06,400	4,22,400	8	13,44,000

The Board of Directors of our Company at its meeting held on August 28, 2025 has taken on record the basis of allotment of Equity Shares approved by the Designated Stock Exchange, being NSE Limited and has allotted the Equity Shares to various successful applicants. The Allotment Advice Curn Refund Intimation will be dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched/ mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on or before August 28, 2025 and no payment has been made to Non syndicate member. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on or before August 29, 2025 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is in the process of obtaining the listing and trading approval from NSE Limited and the trading of the Equity Shares is expected to commence on September 01, 2025.

Note: All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meaning assigned to them in the Prospectus dated August 28, 2025 ("Prospectus").

CORRIGENDUM TO THE PROSPECTUS

On Page no. 86 of the Prospectus under shareholding pattern, 1,28,93,750 Equity Shares of Promoter-Promoter Group and 300,000 Equity Shares of Public Category are to be considered as Locked In.

INVESTORS, PLEASE NOTE The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private

Limited) at www.in.mpms.mufg.com All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/Sole applicants, serial number of the Application

Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:



Address: C-101, Embassy 247, Lal Bhadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083 Maharashtra, India Contact Person: Shanti Gopalkrishnan

Tel: +91 810 811 4949

Email: classicelectrodes.ipo@in.mpms.mufg.com Investor grievance e-mail: classicelectrodes.ipo@in.mpms.mufg.com

Website: www.in.mpms.mufg.com SEBI Registration No.: INR000004058

MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited)

> On behalf of Board of Directors FOR, CLASSIC ELECTRODES (INDIA) LIMITED

Place: Kolkata, India

Date: August 29, 2025

Ms. Bhagyashree Agarwal Company Secretary & Compliance Officer

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARE ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF CLASSIC ELECTRODES (INDIA) LIMITED.

Disclaimer: CLASSIC ELECTRODES (INDIA) LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata on August 28, 2025 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of NSE SME at https://www.nseindia.com/market-data/all-upcoming-issues-ipo and is available on the websites of the BRLM at www.gyrcapitaladvisors.com. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 35 of the Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended or any state securities laws in the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act, 1933 and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act, 1933 and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

SKYWEB INFOTECH LIMITED CIN: L72200DL1985PLC019763

Registered Office: K-20, 2nd Floor, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024 Corporate Office: D-348, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh-201307
Website: www.skywebindia.in | E-mail ID: info@skywebindia.com | Ph. No. 011-29840906

NOTICE OF 40™ ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the 40° Annual General Meeting ("AGM") of the members of Skywet Infotech Limited ("the Company") will be held on Tuesday, the 23th Day of September, 2025 at 01:00 P.M. (IST) at the Registered Office of the Company situated at K-20, 2nd Floor, Laipat Nagar

Pursuant to the General Circular Nos. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021 02/2022, 10/2022, 09/2023 dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 13 2021, December 08, 2021, December 14, 2021, May 05, 2022, December 28, 2022 and September 25, 2023 respectively, followed by Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/ CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and all other applicable provisions of Companies Act. 2013 and notifications issued by the MCA and SEBI, only electronic copies of the Notice of AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 have been e-mailed to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company/RTA/Depositories, to transact the business as set out in the Notice of AGM. The e-mailing of Notice of AGM have been completed on 29th August, 2025 in conformity with regulatory requirements. As per Regulation 36(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations

2015, the letter mentioning the web-link, where the complete details of Annual Report are available, is being sent to those member(s) who have not registered their e-mail address(es) either with the Company/RTA/Depositories. Notice of the AGM along with the Annual Report for the Financial Year 2024-25 is also available or

the Company's website at www.skywebindia.in and on the website of Stock Exchange a www.msei.in and on CDSL's website at www.evotingindia.com. ursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Ma Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing facility for remote e-voting through

Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") through its website www.evotingindia.com to

enable the members to cast their vote electronically Shareholders, whose names are recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e. Tuesday, 16" September, 2025 shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting as well as voting through Poll at the AGM

The remote e-Voting period will commence from Saturday, 20th September, 2025 at 9:00 A.M. (IST) and will end on Monday, 22rd September, 2025 at 5:00 P.M. (IST) Remote e-Voting shall not be allowed beyond the aforesaid period. A member may participate in the general meeting ever after exercising his/her right to vote through remote e-Voting but shall not be entitled to vote again in the meeting. The members present at the meeting, having not exercised their vote by e-Voting shall be entitled to vote by means of poll.

The persons who have acquired shares and have become member(s) of the Company after the dispatch of notice may obtain the login ID and password from Central Depository Services (India) Limited ("CDSL") by sending an e-mail to helpdesk,evoting@cdslindia.com or may contact on the help desk no. 18002109911. Above mentioned person can also be contacted to address the grievances connected with facility for e-Voting by electronic means.

By Order of the Board For Skyweb Infotech Limited

Date: 29th August, 2025 Place: New Delhi

Akshit Singla Company Secretary & Compliance Officer

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.



ADDICTIVE LEARNING TECHNOLOGY LIMITED (Formerly Addictive Learning Technology Private Limited)

(CIN: L74110HR2017PLC118029)

Registered office: Space Creattors Heights, 3rd floor, Landmark Cyber Park, Golf Course Extension, Sector 67, Gurgaon, Haryana India, 122002 Ph. No.: +91 8047486192, E-mail: compliance@lawsikho.in

INFORMATION REGARDING 8™ ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCING ('VC')/OTHER AUDIO-VISUAL MEANS ('OAVM')

This is to inform you that the 8th Annual General Meeting ('AGM') of Addictive Learning Technology Limited ('Company') will be held through VC/ OAVM on Friday September 26, 2025, at 11:00 A.M (IST), in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act. 2013 ('the Act') and the rules made thereunder. read with the latest General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, and other related circulars issued earlier by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated October 03, 2024 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), and other applicable circulars issued in this regard (collectively referred as 'Circulars').

In compliance with the above Circulars, the Notice and Annual Report For FY 2024-25 will be sent, in due course, only through electronic mode to all the Members whose mail addresses are registered with the Company/Depository Participants ("DPs"). The same will also be available on the website of the Company at www.lawsikho.com, Stock Exchange i.e., National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and Registrar and Share Transfer Agent ('RTA') of the Company viz., Maashitla Securities Private Limited at www.maashitla.com. Additionally, in accordance with Regulation 36(1)(b) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") a letter providing the web-link, including the exact path where complete details of the Notice and Annual Report are available, will be sent to those shareholder(s) who have not registered their email addresses with Company/RTA/ Depository participant(s). Members attending the meeting through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Shareholders will have an opportunity to cast their votes either remotely or through e-voting during the AGM on the business to set forth in the Notice of the AGM through electronic voting system. The manner of voting remotely or through e-voting during the AGM for shareholders holding shares in dematerialised form, physical form and for shareholders who have not registered their email addresses shall be provided in the Notice convening the AGM.

Manner of registering/updating email address: Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered

- / updated their e-mail address, are requested to register / update their e-mail address with the Depository Participant(s) where they maintain their demat Further, In terms of MCA Circulars, the Company has also enabled the Members to
- update their e-mail address with the Company for the limited purpose of receiving the Annual Report including Notice of the AGM for FY 2024-25 (including e-voting instructions along with the User ID and the Password to enable e-voting) electronically, by sending an email on gogreen@maashitla.com along with signed and scanned copy of the request letter providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic folio and copy of share certificate in case of physical folio.

By Order of the Board of Directors For Addictive Learning Technology Limited

Date: August 29, 2025 Komal Shah Place: Gurgaon Company Secretary and Compliance Officer



ACUTAAS CHEMICALS LIMITED

(Formerly known as AMI ORGANICS LIMITED) CIN: L24100GJ2007PLC051093

Registered Address: Plot No. 440/4, 5 & 6, Road No. 82/A, GIDC Sachin, Surat-394 230 Email: investorinfo@acutaas.com Website: www.acutaas.com

INFORMATION REGARDING 18TH ANNUAL GENERAL MEETING

The Eighteenth (18") ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") of the members of ACUTAAS CHEMICALS LIMITED ("COMPANY") will be held on Thursday, September 25, 2025 at 11.30 a. m. through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OVAM') facility in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ('the Act') and the Rules made thereunder and read with Ministry of Corporate Affairs circular dated 5th May, 2020 read with circulars dated 8" April, 2020, 13" April, 2020, 13" January, 2021, 14" December, 2021, 28" December, 2022 and Circular 09/2024 dated September 19, 2024 collectively referred to as 'MCA Circulars') and Securities and Exchange Board of India ('SEBI') vide its circulars dated 12" May, 2020, 15" January, 2021, 13" May, 2022, January 5, 2023 and October 3, 2024 (collectively referred to as 'SEBI Circulars') to transact the businesses as set forth in the notice of the 18th AGM.

In compliance with above circulars, the notice of the 18" AGM and Annual Report for the financial year 2024-25 will be sent, in due course, only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company / registrar and share transfer agent or with respective depository participants ('DP').

The Members whose e-mail addresses are not registered with the DPs or the Company MUFG Intime, are requested to register their e-mail addresses. Further pursuant to the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of shareholders with effect from April 1, 2020 and the Company is required to deduct tax at source from dividend paid to shareholders at the prescribed rates. For the prescribed rates for various categories, the shareholders are requested to refer to the Finance Act. 2020 and amendments thereof. Kindly note that the Company is extending the opportunity for the shareholders to submit the aforesaid declarations and documents in order to enable the Company to determine and deduct appropriate TDS / withholding tax rate. The aforesaid documents such as Form 15G 15H, documents under section 196, 197A, etc. can also be uploaded on the link https://web.in.mpms.mufg.com/formsreg/submission-of-form-15g-15h.html. Apart from the above, since the TDS / Withholding rates are different for resident and non-resident Members, if there is a change in your residential status, as per the provisions of the Act, you are requested to get your residential status updated in your demat account or the physical folio, as applicable, before the Record Date. Members who have not updated their email addresses / bank account details for receiving

the dividends directly in their bank accounts through electronic remittance may follow the procedure given below

Physical Holding | Visit the link: https://web.in.mpms.mufg.com/EmailReg/Email Register.html

and follow the registration process as guided therein. Members are requested to provide details such as Name, Folio Number, Certificate number, PAN, e-mail ID along with a copy of cheque leaf with the first named members name imprinted in the face of the cheque leaf containing bank name and branch, type of account, bank account number, MICR details and IFSC code and a duly signed request letter. Members are requested to register their email addresses and bank

account details with their respective DP by following the procedure prescribed by DP.

In case of any query with regard to registration / Updation of email address or bank account details or matters relating to TDS on Dividend, members may contact the Company by sending an e-mail (quoting the Folio No. / DP ID & Client ID) at investorinfo@acutaas.com or Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA") i.e. MUFG Intime India Private Limited at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com The above information is being issued for the benefit of all the Members of the Company in

compliance with the Circulars. By order of the Board of Directors

For ACUTAAS CHEMICALS LIMITED

CS Ekta Kumari Srivastava

Company Secretary & Compliance Officer

MOONGIPA CAPITAL FINANCE LTD. MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED Registered Office: 18/14, W.E.A. Pusa Lane, Karol Bagh, New Delhi – 110005, India **Email:** moongipac@gmail.com | **Website:** www.mongipa.com Corporate Identification Number: L65993DL1987PLC028669

NOTICE TO THE MEMBERS REGARDING THE 38[™] ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM") OF MOONGIPA CAPITAL FINANCE LIMITED

NOTICE is hereby given that the 38th Annual General Meeting of the Members of Moongipa Capital Finance Limited ("the Company") will be held on Thursday, September 25, 2025 at 01:00 P.M (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM"), pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with MCA Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD-PoD-2/CIR/2024/133 dated October 3, 2024, to transact the businesses

In compliance with the said Circulars, the Notice of the AGM along with the Annual Report for FY 2024-25 ('Annual Report') will be sent in due course only through electronic mode to those Members whose email ids are registered with the Company/ Registrar and Transfer agent ('RTA') and Depository Participants ('DP'), those Members who have not registered their e-mail address so far, are requested to register their e-mail address for receiving all communication including Annual Report, Notices, Circulars, etc. from the Company

Appeal to Members to Register their E-mail ID and KYC Details:

as set out in the Notice convening the 38th AGM.

In case shares are held in Such shareholders are requested to register their physical mode

Agent (RTA) of the Company viz. Skyline Financial Services Pvt. Ltd by sending request to Company RTA on admin@skylinerta.com or the company at moongipac@gmail.com. The said request be accompanied with Form ISR-1 for KYC updation.

E-mail ID with the Registrar and Share Transfer

In case shares are held in demat mode

Dated: August 29, 2025 Place: New Delhi

New Delhi

Such shareholders are requested to register their E-mail ID with the relevant Depository Participant(s).

Those physical shareholders who have not yet submitted Form ISR-1, ISR-2, SH-13/ SH-14 are requested to submit the same to RTA/Companies at the earliest. Those shareholders who are holding shares in dematerialized mode are requested to ensure that

aforesaid KYC details and nomination are updated with their Depository Participant.

ID to register their email address for the limited purpose of receiving the Notice of 38th AGM and Annual Report for the Financial Year 2024-25. The Company is providing the remote e-Voting facility before the AGM and e-Voting facility at the AGM to its members to exercise their right to vote on all the resolutions set forth in

Further members holding shares in demat form can also send email ID to aforesaid email

the Notice and proposed to be transacted at the AGM by electronic means. The facility of casting votes will be provided by NSDL. The Members who had already casted their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their


vote again at the AGM. Detailed process and manner of remote e-Voting, e-Voting at the AGM and instructions for attending the AGM through VC/OAVM is being provided in the Members may follow the instructions for remote e-Voting as well as e-Voting at the AGM as

provided in the Notice of the AGM. If you have any queries or issues regarding attending AGM and e-Voting from the NSDL e-Voting System, you can write an email to evoting@nsdl.co.in or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. Candidature for the appointment of Whole-time Director- Notice is also hereby given

that pursuant to Section 160 of the Companies Act, 2013 read with rule 13 of Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Board of Directors has received a notice in writing, from a member, proposing the candidature of Dr. Pooja Jain (DIN: 00097037) for re-appointment as the Whole-time Director for further (5) five years in the 38th AGM of the Company Notice convening the 38th AGM and the Annual Report for the Financial Year 2024-25 will

also be available on the website of the Company at www.mongipa.com and of the stock exchange www.bseindia.com. For Moongipa Capital Finance Limited

> On behalf of the Board of Directors Sandeep Singh Company Secretary and Compliance Officer



Place : Surat

Date : August 29, 2025

Continued from previous page...)

TRACK RECORD OF BOOK RUNNING LEAD MANAGER: The BRLM associated with the Offer has handled 2 Public Issue in the past three years, out of which none of the issue was closed below the Issue/ Offer Price on listing date

Name of BRLM	Total I	ssue	Janua alasad balaw 100 Dates on Lielius De		
Name of DRLM	Mainboard	SME	Issue closed below IPO Price on Listing Date		
Seren Capital Private Limited	0	2	0		

REGISTRAR TO THE OFFER

Maashitla

SEREN CAPITAL

Elevate Your Potential

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE OFFER

SEREN CAPITAL PRIVATE LIMITED Registered Office: Office no. 601 to 605, Raylon Arcade, Kondivita, J.B. Nagar, Mumbai,

Maharashtra - 400059 Tel. No.: +91-22-46011058 Email: info@serencapital.in Investor Grievance Email: investor@serencapital.in

Website: https://serencapital.in/ Contact Person: Ankit Maheswari/Akshita Agarwal SEBI Regn. No. INM000013156

MAASHITLA SECURITIES PRIVATE LIMITED Address: 451, Krishna Apra, Business Square Netaji Subhash Place, Pitampura, Delhi 110034, India. Tel. No.: 011-47581432

Email: investor.ipo@maashitla.com Investor Grievance Email: investor.ipo@maashitla.com Website: www.maashitla.com Contact Person: Mukul Agrawal

SEBI Registration Number: INR000004370

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER (➡) KARBONSTEEL ENGINEERING

Siddhi Bharatbhai Parmar Company Secretary and Compliance Officer Address: B-8: Ratnadeep Cosmopolitan CHS Ltd. 140-141 S.V. Road, Nr. Shoppers Stop, Andheri (W), Mumbai, Maharashtra, India-400058 Tel. No.: +91-22-61872821 Email: cs@karbonsteel.com

Website: https://www.karbonsteel.com/. Investors can contact the Compliance Officer or the Registrar to the Offer in case of any pre- Offer or post-Offer related problems, such as non-receipt of letters of allotment, credit of allotted shares in the respective

beneficiary account, etc.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein, before applying in the Offer. Full copy of the Red Herring Prospectus will be available at the website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of Stock Exchange at www. bseindia.com, the website of BRLM at www.serencapital.in and website of Company at www.karbonsteel.com.

AVAILABILITY OF THE ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the abridged prospectus shall be available on the website of the Company, BRLM and BSE at https://www.karbonsteel.com/offer-document/, https://serencapital.in/offer-documents.php and https://www.bsesme.com/PublicIssues/PublicIssues. aspx?id=1, respectively.

SYNDICATE MEMBER: SS Corporate Securities Limited

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Company: Karbonsteel Engineering Limited, Book Running Lead Manager: Seren Capital Private Limited, Application Forms can also be obtained from the Stock Exchange and list of SCSBs available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in and website of Stock Exchange at www.bseindia.com.

APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA); All investors in this Offer have to compulsorily apply through ASBA. The investors are required to fill the ASBA form and submit the same to their banks. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in ASBA form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund. For more details on the issue process and how to apply, please refer to the details given in application forms and abridged prospectus and also please refer to the chapter "Offer Procedure" on page 335 of the Red Herring Prospectus.

BANKER TO THE OFFER: Axis Bank Limited

Date: August 29, 2025

Place: Mumbai, Maharashtra

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For Karbonsteel Engineering Limited

Shrenik Kirit Shah

Designation: Chairman & Managing Director

DIN: 02070901

Disclaimer: Karbonsteel Engineering Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares the Red Herring Prospectus dated August 29, 2025 has been filed with the Registrar of Companies, Mumbai, Maharashtra and thereafter with SEBI and the Stock Exchanges. The RHP shall be available on the website of the SEBI at

www.sebi.gov.in , website of BSE SME at www.bsesme.com and is available on the websites of the BRLM at www.serencapital.in. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to the Red Herring Prospectus including the section titled "Risk Factors" beginning on page 26 of the Red Herring Prospectus. The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction

not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

Executive Engineer &

स्काईवेब इन्फोटेक लिमिटेड

CIN: L72200DL1985PLC019763 पंजीकृत कार्यालय: K-20, द्वितीय तल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली-110024 कॉर्पोरेट कार्यालय: D-348, सेक्टर-63, नीएडा, उत्तर प्रदेश-201307 वेबसाइट: www.skywebindia.in | ईमेल आईडी: info@skywebindia.com | फ्रोन नंबर: 011-29840906

40" वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद द्वारा सुचित किया जाता है कि स्काईवेब इन्फोटेक लिमिटेड ("कंपनी") के सदस्यों की 40वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को दोपहर 01:00 बजे (आईएसटी) कंपनी के पंजीकत कार्यालय के-20, द्वितीय तल, लाजपत नगर-॥, नई दिल्ली-110024 में आयोजित की जाएगी

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या १४/२०२०, १७/२०२०, २०/२०२०, ०२/२०२१ 19/2021, 21/2021, 02/2022, 10/2022, 09/2023 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020, 05 मई. 2020 13 जनवरी, 2021, 08 दिसंबर, 2021, 14 दिसंबर, 2021; 05 मई, 2022, 28 दिसंबर, 2022 और 25 सितंबर, 202 क्रमशः के अनुसरण में, जिसके बाद 19 सितंबर, 2024 का परिपत्र संख्या 09/2024 और परिपत्र संख्या भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिनांक 03 अक्टूबर, 2024 के SEBI/HO/CFD/PD-PoD-2/P/ CIR/2024/133 के अनुसार और कंपनी अधिनियम, 2013 के सभी अन्य लागू प्रावधानों और MCA एवं SEBI द्वारा जारी अधिसूचनाओं के अनुसार, वार्षिक आम बैठक (AGM) की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट की केवल इलेक्टोनिक प्रतियाँ उन सभी शेयरधारकों को ईमेल द्वारा भेजी गई हैं जिनके ईमेल पते कंपनी/RTA डिपॉजिटरीज़ के पास पंजीकृत हैं, ताकि वे वार्षिक आम बैठक (AGM) की सचना में दिए गए अनुसार व्यवसाय कर अगस्त, 2025 को पूरा हो गया है। सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, वेब-

लिंक का उल्लेख करते हुए पत्र. जहां वार्षिक रिपोर्ट का परा विवरण उपलब्ध है. उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिन्होंने कंपनी/आरटीए/डिपॉजिटरी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी की वेबसाइट www.skywebindia.in औ स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.msei.in और सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भे

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 और सेबी (स्वीबद्धत दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में, कंपनी अपने सदस्यों के इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डालर्ने में सक्षम बनाने के लिए अपनी वेबसाइट www.evotingindia.com के माध्यम से सेंटुल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") के माध्यम से दूरस्थ ई-वॉटिंग की सुविधा

जिन शेयरधारकों के नाम **कट-ऑफ तिथि अर्थात मंगलवार, 16 सितंबर, 2025** को सदस्यों के रजिस्टर य डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ पोल के माध्यम से मतदान की सविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शनिवार, 20 सितंबर, 2025 को सबह 9:00 बजे (आईएसटी) से शरू होगी और सोमवार, 22 सितंबर, 2025 को शाम 5:00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी। उपरोक्त अवधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी आम बैठक में भाग ले सकता है. लेकिन उसे बैठक में दोबारा मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। बैठक में उपस्थित वे सदस्य, जिन्होंने ई-वोटिंग द्वारा अपने मत का प्रयोग नहीं किया है, मतदान के माध्यम से मतदान करने

जिन व्यक्तियों ने शेयर खरीदे हैं और नोटिस भेजने के बाद कंपनी के सदस्य बन गए हैं. nelpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल भेजकर सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेन (इंडिपा) लिमिटेड ("सीडीएसएल") से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं या हेल्प डेस्क नंबर 18002109911 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए उपर्युक्त व्यक्ति से भी संपर्क किया जा सकता है।

दिनांक: 29 अगस्त, 2025 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी स्थान: नई दिल्ली



एन्कोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एन्कोर एआरसी) एनकोर एआरसी निगमित कार्यालय पता : 5वाँ तल, भूखंड सं. 137, सेक्टर 44, गुरुग्राम 122002, हरियाणा

जी–112, पहली मंजिल, पालम विहार, अंसल

मॉल के पास, चोमा 62, गुरूग्राम,

बोर्ड के आदेशानुसार कृते स्काईवेव इन्फोटेक लिमिटेड

अक्षित सिंगल

28.08.2025

(पूर्वाग्रह के बिना)

ENCOREARC/RES/ABCL/AK/2526/0801 श्रीमती पुजा कथुरिया (गारंटर)

श्री अनिल कथूरिया (उधारकर्ता) जी-112, पहली मंजिल, पालम विहार, निकट अंसल मॉल, चोमा 62, गुरुग्राम, हरियाणा-122017

हरियाणा-122017 इसके अलावाः संपत्ति संख्या 1138, पालम इसके अलावाः संपत्ति संख्या 1138, पालम विहार, विहार, गाँव – चौमा, गुरूग्राम, हरियाणा-122017

गांव — चौमा, गुरूग्राम, हरियाणा—122017 श्रीमती कशिश कथूरिया (गारंटर) जी-112, पहली मंजिल, पालम विहार, अंसल मॉल के पास, चोमा 62, गुरुग्राम, हरियाणा-122017

संपत्ति संख्या 1138, पालम विहार, गाँव- चौमा, गुरुग्राम, हरियाणा-122017 विषय : सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (8) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली

2002 ("नियमावली") के नियम 8 (6) के अंतर्गत श्री अनिल कथूरिया ("उंधारकर्ता") की उस प्रतिभूत

परिसंपत्ति के विक्रय की सूचना, जिसका अधिग्रहण नियमावली के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''सरफेसी अधिनियम'') की धारा 13(4) के अंतर्गत लिया जा चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ("एनकोर एआरसी") ने आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड ("एबीसीएल") द्वारा उधारकर्ता को दी गई वित्तीय सहायता को सभी अंतर्निहित प्रतिभृतियों के साथ दिनांक 30.06.2025

के असाइनमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से प्राप्त कर लिया है। एनकोर एआरसी द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करने से पहले, एबीसीएल ने 20.05.2025 को सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत एक सूचना जारी की थी, जिसमें आपको उसमें उल्लिखित बकाया राशि का भुगतान करने की सलाह दी गई थी। चूंकि आप सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत जारों की गई उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं और आपने भुगतान की उपेक्षा की है, इसलिए एनकोर एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी ने 18.08.2025 को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार अचल सुरक्षित परिसंपत्ति

का साँकेतिक अधिग्रहण अपने हाथ में ले लिया। कृपया इसे नियमावली के नियम 8(6) के तहत 30 दिन की सूचना मानें। 30 दिनों की सूचना अवधि समाप्त होने पर, एनकोर एआरसी के प्राधिकृत अधिकारी सुरक्षित संपत्ति को सार्वजनिक नीलामी / निजी संधि या नियमों के तहत दिए गए किसी अन्य तरीके से बेचने के लिए कदम उठाएंगे,

जैसा कि नीचे विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। सुरक्षित परिसंपत्ति का विवरण :

आवासीय भूखंड संख्या 1138 का वह पूरा हिस्सा, जिसका क्षेत्रफल 788.50 वर्ग मीटर (943. 06 वर्ग गज) है और उस पर निर्माण कार्य चल रहा है, जिसका निर्मित क्षेत्रफल 7000 वर्ग फुट है, जिसमें भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल शामिल हैं। यह "अंसल के पालम विहार" नामक आवासीय कॉलोनी के ब्लॉक-जे में स्थित है और गाँव चौमा और कार्टरपुरी तहसील एवं जिला गुरुग्राम की राजस्व संपदा के अंतर्गत आता है, और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:

उत्तर दिशा में या उत्तर की ओरः सडक

दक्षिण दिशा में या दक्षिण की ओरः सडक पूर्व दिशा में या पूर्व की ओरः राजस्व रास्ता

पश्चिम दिशा में या पश्चिम की ओरः भूखंड संख्या जे–1137

सार्वजनिक ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के मामले में, आरक्षित मूल्य, बयाना राशि जमा आदि सहित बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें भी नियमावली के नियम 8 (7) के अनुसार एनकोर एआरसी की वेबसाइट यानी https://www.encorearc.com तथा https://sarfaesi.auctiontiger.net/EPROC६ पर अपलोड की जाएंगी, साथ ही परिशिष्ट-IV, में दिए गए फॉर्म में सार्वजनिक ई—नीलामी बिक्री सूचना का प्रकाशन किया जायेगा।

उधारकर्ता / बंधककर्ता / गारंटर का ध्यान सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो 31.05.2025 के अनुसार बकाया रु. 4,95,74,694 / — (रुपये चार करोड़ पिचानबे लाख चौवहत्तर हजार छह सौ चौरानबे मात्र) की संपूर्ण बकाया राशि का 01.06.2025 से भविष्य के ब्याज, शुल्क और लागतों सहित पूरे बकाया को चुकाने के लिए सुरक्षित परिसंपत्ति को ऋणमतुक्त के लिए उपलब्ध समय के संबंध

उधारकर्ता / बंधककर्ता(ओं) / गारंटर(रों) को तदनुसार सुरक्षित परिसंपत्ति को ऋणमुक्त करने के लिए एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है, जिसके विफल होने पर, ईएआरसी-बैंक-035-ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत एनकोर एआरसी नियमों के अनुसार उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री के साथ आगे बढ़ेगी।

आपका विश्वांसपात्र सचिन कुमार (प्राधिकृत अधिकारी)

कृते एनकोर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (ईएआरसी-बैंक-035-ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य करते हुए)

MARUTI & SUZUKI मारूति सुजुकी इंडिया लिमिटेड

पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत क्ंज, नई दिल्ली-110070 फोन: +91 (11) 46781000, फीनस: +91 (11) 46150275 www.marutisuzuki.com, investor@maruti.co.in

100 दिवसीय अभियान – "सक्षम निवेशक" – अपने ग्राहक का जानें (केवाईसी) और अन्य संबंधित अद्यतनीकरण तथा शेयरघारक सहमानिता हेतू, ताकि अवैतनिक 🖊 अदावाकृत लामांशों को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष ("आईईपीएफ") में स्थानांतरित होने से रोका जा सके।

भारती सज़की इंडिया लिमिटेड के शेयरधारकों को सचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष प्राधिकरण ("आइईपीएफ") कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ("एमसीए") के दिनांक 18 जुलाई 2025 के संचार के अनुसार, कंपनी ने 28 जुलाई 2025 से 6 नवंबर 2025 तक 100 दिनों का "सक्षम निवेशक" अभियान शुरू किया है। इस अभियान के दौरान, सभी शेयरधारक यदि आपने अपने-लामांश का दावा नहीं किया है या अपने केवाइसी और नामांकन विवरण अपडेट नहीं किए हैं या दावा न किए गए लामांश और शेयरों से संबंधित किसी भी समस्या का सामना कर रहे है, तो वे कंपनी रजिस्टार और टांसफर एजेंट ("आरटीए") यानी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड सेलेनियम बिल्डिंग, टॉवर-बी, प्लॉट नं. 31 और 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, सेरिलिंगमपल्ली, रंगारेडडी, हैदराबाद- 500032, तेलंगाना, भारत या ईमेल आईडी einward.ns@klintech.com पर संपर्क करें। या केफिनटेक टोल फ्री नंबर: 18003094001 पर कॉल करें और आगे कंपनी को ईमेल आईढी: investor@maruti.co.in पर मेजें।

शेयरघारक यह भी ध्यान दें कि यह अभियान सक्रिय रूप से और विशेष रूप से शेयरघारकों तक पहाँचने के लिए शुरू किया गया है ताकि वे अपने केवाईसी, बैंक अधिदेशों को अपडेट कर सकें। नामांकित व्यक्ति और संपर्क जानकारी आदि का विवरण भरें और अपने अवैतनिक / अदावाकृत लामांश का दावा करें ताकि उनके शेयर और लामांश राशि IEPF को हस्तांतरित होने से बच सकें।

मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिये

संजीव ग्रोवर कार्यकारी अधिकारी स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 29 अगस्त 2025 एवं कंपनी सचिव

एनआईआईटी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नं0. 85, सेक्टर 32, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम — 122001, हरियाणा, भारत CIN: L74899HR1981PLC107123 फोन: +91 (124) 4293000; वेबसाइट: www.niit.com; ईमेल: investors@niit.com

42वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

वहाँ सूचना दी जाती है कि एनआईआईटी लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 42वीं वार्षिक सामान्य बैठक ('एजीएम') बुधवार, 24 सितम्बर, 2025 को सुबह 10:00 बजे (भारतीय मानक समय) में एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यों के निष्पादन के लिए वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी। जिसमें एजीएम की सूचना में उल्लिखित अनुसार कंपनी अधिनियम, 2023 ('अधिनियम') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 ('सूबीबद्धता विनियम') के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') और सेबी द्वारा जारी सभी लागू परिपत्रों के अनुपालन में कारोबार किया जाएगा। एजीएम के लिए मान्य स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा।

वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आम बैठकें आयोजित करने के संबंध में एमसीए और सेबी द्वारा जारी परिपत्रों के अनुपालन में, वित्तीय पर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी के उन सदस्यों को 29 अगस्त, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज दी गई है जिनके ई-मेल पते कंपनी, रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट और ढिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के पास पंजीकृत हैं। जिन सदस्यों ने अपने ईमेल पत्ते पंजीकृत नहीं कराए थे, उन्हें वार्षिक रिपोर्ट देखने के लिए वेबलिक और क्यूआर कोड युक्त एक पत्र भी भेजा जा रहा है। उक्त परिपत्रों के साथ, सदस्यों को वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियाँ भेजने की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। उपरोक्त कथित सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.niit.com तथा स्टॉक एक्सबेंजों की वेबसाइट अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रमशः www.bseindia.com एवं www.nseindia.com

एजीएम में निष्पादित किये जाने वाले मद से संबंधित दस्तावेज और एजीएम की सुबना में संदर्भित दस्तावेज तथा वार्षिक रिपोर्ट कंपनी को ई-मेल investors@niit.com पर अनुरोध भेजने पर सदस्यों हारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्द कराई जाएगी।

त्रचिनियम की घारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, समय–समय पर यथासंशोधित और लिरिटंग विनियमों के विनियम 44 तथा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज आफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठक पर सविवीय मानक (एसएस–2) के अनुपालन में कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम के स्थान के अलावा कही से भी अपना वोट रिमोट ई–वोटिंग ('रिमोट ई–वोटिंग') के गाध्यम से देने की सुविधा उपलब्ध करा रही है। कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड ('एनएसडीएल') के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई-वोटिंग') का उपयोग करके रिमोटली वोट ढालने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने और एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगी। इस संबंध में प्रक्रिया / निर्देश एजीएम की सूचना में संलग्न नोट्स में दिये गये हैं। इंस्टीट्यूशनल /कॉर्पोरेट शेयरघारकों की श्रेणी के अंतर्गत कंपनी के सदस्यों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने एवं भाग लेने तथा अपना वोट देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वीसी / ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण यदि रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं देते हैं तो एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से वोट देने के लिए योग्य होंगे। कंपनी के सदस्य जो कट-ऑफ तिथि अर्थात बधवार, 17 सितम्बर, 2025 तक शेयरधारक हैं, वे दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने या वीसी / ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने और एजीएम में बोट डालने के हकदार होंगे। सदस्यों के मतदान अधिकार कंपनी की भूगतान की गई इक्विटी शैयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। रिमोट ई-बोटिंग अवधि शुक्रवार, 19 सितम्बर, 2025 (प्रात: 9:00 बजे भा मा स) प्रारंभ होगी और मंगलवार, 23 सितम्बर, 2025 (साय 5:00 बजे भा मा स) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल हटा लिया जाएगा। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा एक बार प्रस्ताव पर सदस्यों द्वारा वोट देने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता है। यदि रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में भी ई-वोटिंग से वोट दिया जाता है तो केवल रिमोट ई-बोटिंग को ही अंतिम माना जाएगा और एजीएम में ई-बोटिंग पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि कोई सदस्य सूबना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कंपनी का सदस्य बनते है तथा कट ऑफ तिथि अर्थात् बुधवार, 17 सितम्बर, 2025 को शेयर धारित करते हैं, वे evoling@nsd.com अथवा investors@nit.com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते है। लेकिन, यदि वे रिमोट ई-वोटिंग के लिये पहले से ही एनएसडीएल में पंजीकृत है तो अपना वोट करने के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं।

श्री नित्यानंद सिंह, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 2668; सीपी 2388) या उनकी अनुपरिधति में श्री मोहित बंसल, पेशेवर कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या एफसीएस 11292, सीपी 16860), मैसर्स नित्यानंद सिंह एंड कंपनी के कंपनी सचिव को ई—वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सदस्यगण जो एजीएम के दौरान अपनी राय रखना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वह अपने पंजीकत ई-मेल आईडी के माध्यम से अपना नाम, बिमेट खाता / फोलियो नम्बर, ई-मेल आईडी, मोबाइल नम्बर वर्णित करते हुए अनुरोध पत्र कंपनी के पास investors@niit.com पर भेजकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। स्पीकर रजिस्ट्रेशन बुधवार, 17 सितम्बर, 2025 तक खुला रहेगा। ऐसा व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि को सदस्य के रूप में है, वहीं पंजीकरण और एजीएम में भागीदारी के

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में ई-वोटिंग एवं मागीदारी के संबंध में किसी भी पूछताछ के लिए सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाचनलोड सैक्शन पर उपलब्ध शेयरघारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का अवलोकन करें या टोल फ्री नं. 022-4886 7000 पर कॉल करें या <u>evoting@nsdl.com</u> पर अनुरोध मेजें या एनएसडीएल, ट्रेंड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोजर परेल, मुम्बई-400013, पर सम्पर्क कर सकते हैं।

लाभांश पर स्रोत पर कर कटौती पर निर्देश:

स्थानः गुरुग्राम

दिनांकः ३० अगस्त, २०२५

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों के हकदार होने का निर्धारण करने के लिए रिकॉर्ड तिथि के रूप में गुरुवार, 4 सितंबर, 2025

को निर्धारित किया है, यदि इसे एजीएम में अनुमोदित किया जाता है। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे लामांश पर स्रोत पर कर कटौती से संबंधित एजीएम की सूचना में निर्धारित नोट्स देखें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को किसी मी कर लाम (कोई कर नहीं या कम दर पर कर कटौती) के लिए अपने दस्तावेज ई-मेल

प्रकार से पूर्ण, वैध और कंपनी द्वारा सत्यापन के अधीन होगा। कंपनी की एजीएम के संबंध में पहले जारी की गई सूचना कंपनी और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

investors@niit.com के माध्यम से शनिवार, 13 सितंबर, 2025 तक प्रस्तृत करें। यह सभी

बोर्ड के आदेश से कृते एनबाईआईटी लिमिटेड **इस्ता./**-अर्पिता बिसारिया मल्होत्रा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

गोलपोस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 324ए, तीसरी मंजिल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिल्ला, नई दिल्ली-110085.

ईमेल आईडी: gulmoharlimited@gmail.com, दूरभाष: +91-9599919919. वेबसाइटः www.goalpostltd.in, सीआईएनः L74110DL1982PLC013956

43वीं वार्षिक आम बैठक और बुक क्लोजर की तिथियों के संबंध में जानकारी

एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') द्वारा जारी पूर्व सामान्य परिपत्र और सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD- PoD-2/P/CIR/2024/133 दिनांक 03 अक्टबर, 2024 और कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय, भारतीय प्रतिभति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथासमय संशोधित जारी सभी अन्य लागु कानुनों, नियमों, विनियमों के अनुपालन में मेसर्स गोलपोस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 43वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शक्रवार, 26 सितंबर, 2025 को 11:00 बजे पर्वा. (भा.मा.स.) कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एजीएम की सचना में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय के संचालन हेतु आयोजित की जाएगी।

उपर्युक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार, और सूचीबद्धता विनियमों के अनुपालन में,

वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट ('वार्षिक रिपोर्ट') एजीएम की सूचना के साथ कंपनी के किवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजी जाएगी जिनके ई-मेल पते कंपनी डिपॉजिटरी प्रतिभागी(यों) के पास पंजीकृत हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ 43वीं एजीएम की सचना की भौतिक प्रतियां उन सदस्यों को भेजी जाएंगी जो इसके लिए इसके अलावा, सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियमन 36(1)(बी) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-

25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट एक्सेस करने के लिए वेब-लिंक और क्युआर कोड प्रदान करने वाला एक पत्र उन शेयरधारकों को भेजा जाएगा जिन्होंने कंपनी के अपने संबंधित डीपी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') यानी मेसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपना र्ड-मेल पता पंजीकत नहीं किया है।

इसके अलावा, यदि आपकी ईमेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है, तो वार्षिक रिपोर्ट और लॉगिन विवरण के साथ वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सचना आपकी पंजीकत ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो नीचे दी गई प्रक्रिया अपनाई जा सकती है: भौतिक रूप से शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए:

शेयरधारकों को फॉर्म आईएसआर-1 में अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और अन्य विवरण, सेबी द्वारा निर्धारित अन्य प्रासंगिक फॉर्मों के साथ, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को उनके कार्यालय, डी-153/ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज-क नई दिल्ली-110020, भारत में या उनके ईमेल आईडी admin@skylinerta.com पर प्रस्तुत करना होगा। आवश्यक फॉर्म कंपनी की वेबसाइट https://goalpostltd.in/ और कंपनी के आरटीए की

वेबसाइट www.skylinerta.com पर उपलब्ध हैं। डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के लिए: शेयरधारकों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपने डीमैट खाते में अपना ईमेल आईडी अपडेट करना होगा।

वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक की सूचना कंपनी की वेबसाइट https://goalpostltd.in/, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटें, जैसे एमएसईआई, सीएसई www.msei.in, www.cse-india.com और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराई जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को 9:00 बजे पूर्वा. से शुरू होकर गुरुवार, 25 सितंबर, 2025 को 5:00 बजे अप. समाप्त होगी। उपरोक्त तिथि और समय के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी। केवल वही व्यक्ति. जिसका नाम कट-ऑफ तिथि (रिकॉर्ड तिथि) अर्थात शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 को सदस्यों/लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हो, बैठक में रिमोट ई–वोटिंग/वोटिंग की सविधा

कोई भी व्यक्ति जो बैठक की सूचना भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सचना में भी दी गई है. जो कंपनी की वेबसाइट और एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य पहले से ही ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। बुक क्लोजरः यह भी सुचित किया जाता है कि अधिनियम की धारा 91 और उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार, कंपनी के सदस्यों के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण बहीखाते 43वीं वार्षिक आम 🛮 बैठक (एजीएम) के उद्देश्य से 20.09.2025 से 26.09.2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे। गोलपोस्ट इंडस्टीज लिमिटेड के लिए

दिनांक: 28 अगस्त, 2025 स्थानः नई दिल्ली

का लाभ उठाने का हकदार होगा।

कालिका मिश्रा कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

JAIPUR DEVELOPMENT AUTHORITY Indira Circle, Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302004 No : JDA/EE & TA to Dir. Engg.-I/2025-26/ Dated: 29.08.2025

NOTICE INVITING BID NIB No.: EE & TA to Dir. Engg.-1/22/2025-26

Bids are invited from interested bidders for following works :-

S. No.	UBN No.	Cost of Work (Lacs)	Nature of Work	Last Date
1	JDA2526WLOB00402	1925.50	Box Drain	16.09.2025

Other particulars of the respective bid may be visited on Procurement Portal website www.sppp.rajasthan.gov.in, www.eproc.rajasthan.gov.in and www.jda.rajasthan.gov.in

TA to Dir.Engg-I Raj.Samwad/C/25/9118

होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड CIN: L40103DL2004PLC203950

पंजीकृत कार्यालय: 409, डीएलएफ टावर बी, जसोला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110025 वेबसाइट: www.hondaindiapower.com | ईमेल: ho.legal@hipp.co.in

फ़ोन: +91- 01141082210 शेयरधारकों के लिए सूचना

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए विशेष विंडो

सेबी परिपन्न संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक 02 जलाई 2025 के अनुसार, होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के भौतिक शेयर हस्तांतरण अनुरोधी को पुनः दाखिल करने के लिए एक विशेष विंडो 06 जनवरी, 2026 तक खुली है। यह केंवल 01 अप्रैल, 2019 से पहले दर्ज किए गए उन हस्तांतरण विलेखों पर लागू होता है जिन्हें

दस्तावेज़ों की कमियों के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। स्वीकृत हस्तांतरण केवल डीमैट मोड में जारी किए जाएंगे और हस्तांतरण की तिथि से 6 महीने की लॉक-इन अवधि के अधीन इस सविधा का लाभ उठाने के लिए, कृपया कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, एमएएस सर्विसेज लिमिटेड से investor@masserv.com पर संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए,

सेबी परिपत्र देखें या investor@masserv.com पर ईमेल करें। बोर्ड के आदेशानुसार कृते होंडा इंडिया पावर प्रोडक्ट्स लिमिटेड

सुनीता गंजू

दिनांक: 29 अगस्त, 2025

स्थान: नई दिल्ली

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

केनरा बैंक 📣 Canara Bank

सिंडिकेट Syndicate

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा (डी.पी.-17415)

भूतल, लव कुश टावर, एक्जीबिशन रोड, पटना-800001, फोन : 7903039522, ईमेल : cb17415@canarabank.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) एवं 6 (2) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय अस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभृति हित का प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभृति-दाता को यह सूचना दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास गिरवी / प्रभारित है, का प्रलक्षित / वास्तविक कब्जा (इनमें से जो भी लागू होता हो) प्रतिभूति लेनदार केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जो है जहां है", "जो है क्या है" एवं "वहां जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक 19.09.2025, को बेचा जाएगा। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :

क्र सं	Carried Control of the Control of th	बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/EMD रक /बोली वृद्धि की राशि / Auction ID
1	ऋणीः में. विक्रमशिला पेंट वर्क्स, मालिक-श्री प्रणब कुमार, सनविला एकंडमी के पास, लालूचक, अंगारी, भागलपुर, बिहार—812001, जमानतदार — श्रीमती चंद्रकांता, पति— प्रणव कुमार, हरिदास निकुंज, सनविला अकादमी के पास, भागलपुर, बिहार — 812001, जमानतदार— श्रीमुकुंद प्रसाद तिवारी, कामदेवपुर, अमरपुर, बांका, बिहार—812001, जमानतदार—श्रीमती राजलक्ष्मी, पति—पवन कुमार, हरिदास निकुंज, सनविला अकादमी के पास, भागलपुर, बिहार—812001, जमानतदार—श्री अमरेंद्र कुमार पांडे, सारदा सिनेमा हाँल के पास, भागलपुर, बिहार—812001, जमानतदार— श्री राजेश पांडे, महाराणा प्रताप नगर, एटा, उत्तर प्रदेश — 207001	24,21,050.29 दि. 24.04.2024 तक + उसके आगे का ब्याज एवं खर्चे वसूली होने तक	संपत्ति के सभी भाग एवं खंड जिसमे शामिल हैं सम्पत्ति — 1 — सेल डीड सं. — 2828, खाता सं. — 379, खेसरा सं. — 1309, मालिक श्री अमरेंद्र कुमार पांडे एवं श्री राजेश कुमार पांडे, सम्पत्ति — 2 — सेल डीड सं. — 2831, खाता सं. — 379, खेसरा सं. — 1309, मालिक श्रीमती चंद्रकांता एवं श्रीमती राजलक्ष्मी, सम्पत्ति — 3 — सेल डीड सं. — 2829, खाता सं. — 379, खेसरा सं. — 1309, मालिक श्री मुकुन्द प्रसाद तिवारी कुल रकवा — 13.66 डिसमील = 5950 वर्गफुट चौहद्दी—उत्तर— सुमित्रा देवी एवं अन्य, दक्षिण:— फुलवरिया—सिमरिया पक्की सड़क, पूरब — सीता राम पांडे, पश्चिमः— 14 फीट कच्चा रास्ता	रू. 46,00,000/- रू. 4,60,000/- रू- 25,000/-

ई.एम.डी. की अंतिम तारिख 18.09.2025

विक्रय के निबंधन एवं शत्तों के व्योरे के लिए कृप्या प्रतिभृति लेनदार के वेबसाईट – www.canarabank.com/pages/bihar, http://baanknet.com पर जायें.

वाद की रिथती में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा। प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

epaper.jansatta.com